



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 87)

पटना, मंगलवार, 4 फरवरी 2025

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश

31 जनवरी 2025

सं० 3—जिलाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सहरसा की दिनांक—24.09.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक—1044 दिनांक—24.09.2024 (क्रम सं०—4 पर अंकित) द्वारा स्व० आशा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, कारखाना निरीक्षक कार्यालय, सहरसा अंचल, सहरसा के आश्रित पुत्र—श्री प्रियरंजन कुमार की समूह—‘ग’ (ग्रेड पे—1900) के पद पर लेवल—02 में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

जिला अनुकम्पा समिति, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में श्री प्रियरंजन कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर ग्रेड पे—1900/— (वेतन स्तर—2) (वेतनमान—19,900—63,200) में समय—समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, सहरसा अंचल, सहरसा में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री प्रियरंजन कुमार की जन्म तिथि—06.05.1996 है।

3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

4. श्री प्रियरंजन कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उनपर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेंगे होगा।

5. श्री प्रियरंजन कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा—भत्ता देय नहीं होगा।

7. श्री प्रियरंजन कुमार को इस आशय का शपथ—पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो।

8. श्री प्रियरंजन कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. श्री प्रियरंजन कुमार को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा।
10. श्री प्रियरंजन कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं०-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं०-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री प्रियरंजन कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
12. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्यों को जान बूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।

आदेश से,
राजेश भारती,
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 87-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>